

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 12 जनवरी 2015—पौष 22, शक 1936

#### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2015

फा. क्र. 17(ई)-261-2014-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश हेतु नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2014-15 हेतु निर्वाचन कार्य सम्पादित कराने के लिये, संलग्न सूची में उल्लिखित अधिकारियों को नगरीय निकायों निर्वाचन का कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु सम्पूर्ण जिले के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अमिताभ मिश्र, अपर सचिव.

#### कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की सूची

क्र. (1)	मास्टर ट्रेनर्स का नाम (2)	पद (3)	विभाग का नाम (4)	मोबाईल नम्बर (5)
1	श्री आर. एस. वर्मा	प्राध्यापक	शास. मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय, भोपाल	9425672506
2	श्री सुधांशुधर द्विवेदी	प्राध्यापक	शास. बेनजीर महाविद्यालय, भोपाल	9425007434
3	डॉ. एच. के. गर्ग	प्राध्यापक	शास. सरोजनी नायडू कन्या स्नातक स्वशासी महाविद्यालय, भोपाल.	9424417792
4	डॉ. आशीष तिवारी	व्याख्याता	शास. एस. व्ही. पॉलीटेक्नीक महाविद्यालय, भोपाल	9826339737
5	डॉ. आर. के. शर्मा	सहा. प्राध्यापक	शास. महाविद्यालय, बैरसिया	9425370516
6	डॉ. शोएब खान	सहा. प्राध्यापक	शास. महाविद्यालय, बैरसिया	9300908154
7	डॉ. एम. एल. सोनी	प्राध्यापक	शास. हमीदिया कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, भोपाल.	9425677843
8	डॉ. पीयूष भटनागर	प्राध्यापक	शास. महारानी लक्ष्मीबाई कन्या महाविद्यालय, भोपाल.	
9	डॉ. जीतेन्द्र परमार	प्राध्यापक	शास. हमीदिया कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, भोपाल.	9425010677

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	डॉ. दीपक राज तिवारी	प्राध्यापक	शास. मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय, भोपाल	9425378401
11	डॉ. अशोक नेमा	प्राध्यापक	शास. बेनजीर महाविद्यालय, भोपाल	9425438403
12	डॉ. अशोक नेमा	प्राध्यापक	शास. महारानी लक्ष्मीबाई महाविद्यालय, भोपाल.	9826322901
13	डॉ. उमेश श्रीवास्तव	प्राध्यापक	शास. मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय, भोपाल	9826360678
14	डॉ. आर. के. त्रिपाठी	प्राध्यापक	शास. एस. व्ही. पॉलीटेक्नीक महाविद्यालय, भोपाल.	9826296298
15	डॉ. अशोक गुप्ता	प्राध्यापक	शास. मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय, भोपाल	9827330349
16	डॉ. सौरभ तिवारी	व्याख्याता	शास. एस. व्ही. पालीटेक्नीक महाविद्यालय, भोपाल.	9893281092
17	डॉ. पी. के. जैन	प्राध्यापक	—	
18	डॉ. एस. के. मालवीय	प्राध्यापक	शास. हमीदिया कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, भोपाल.	
19	श्री राजेश खरे	प्राध्यापक	शास. बेनजीर महाविद्यालय, भोपाल	
20	डॉ. संजय श्रीवास्तव	प्राध्यापक	पं. खुशीलाल आयुर्वेदिक महाविद्यालय, भोपाल	9425012608
21	श्री पर्वत गिरी गोस्वामी	व्याख्याता	शास. मा. क. शा. मौ. आजाद	9993187374
22	डॉ. राजेन्द्र जुगादे	प्राध्यापक	उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल	
23	श्री विनय यादव	प्राध्यापक	शास. एस. व्ही. पॉलीटेक्नीक महाविद्यालय, भोपाल	9826196561
24	श्री अनिल बाखरु	प्राध्यापक	शास. एस. व्ही. पॉलीटेक्नीक महाविद्यालय, भोपाल	9826089330
25	श्री एस. डी. मिश्रा	प्राध्यापक	अटल बिहारी बाजपेयी हिन्दी वि. वि., भोपाल	
26	श्री सुरेश सोनी	प्राध्यापक	शास. एस. व्ही. पॉलीटेक्नीक महाविद्यालय, भोपाल	9827079343
27	डॉ. पवन पंडित	प्राध्यापक	शास. हमीदिया कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, भोपाल.	9406528368
28	डॉ. संजय दीक्षित	प्राध्यापक	शास. मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय, भोपाल	9425007007
29	डॉ. संतोष भार्गव	प्राध्यापक	शास. मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय, भोपाल	9424455671
30	डॉ. सुधीर जैन	प्राध्यापक	शास. महारानी लक्ष्मीबाई महाविद्यालय, भोपाल	9425011357
31	डॉ. के. के. मिश्रा	प्राध्यापक	शास. बेनजीर महाविद्यालय, भोपाल	
32	श्री रमेश श्रीवास्तव	प्राध्यापक	शास. मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय, भोपाल	9425021523
33	डॉ. आर. के. श्रीवास्तव	प्राध्यापक	शास. सरोजनी नायडू कन्या महाविद्यालय, भोपाल	9229487478
34	प्रो. पी. सी. माथुर	सहा. प्राध्यापक	शास. मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय, भोपाल	9425454006
35	डॉ. प्रग्येश अग्रवाल	प्राध्यापक	शास. सरोजनी नायडू कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, भोपाल.	
36	डॉ. अशोक शर्मा	प्राध्यापक	शास. मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय, भोपाल	
37	श्री पी. डी. रोबिन	कनिष्ठ प्रबंधक	भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, नेहरु नगर, भोपाल	9826437221
38	श्री संतोष चतुर्वेदी	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री, म. प्र. गृ. नि. एवं अधोसंरचना विकास मण्डल क्र. 3, भोपाल.	
39	श्री बुद्धसेन पटेल	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री, म. प्र. गृ. नि. एवं अधोसंरचना विकास मण्डल क्र. 3, भोपाल.	
40	श्री अखिलेश कुमार	हिन्दी अधिकारी	भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, नेहरु नगर, भोपाल	
41	श्री आर. के. जैन	शोध अधिकारी	पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, पर्यावरण परिसर, ई-5 सेक्टर, अरेरा कालोनी, भोपाल	9826584737
42	श्री सुरेश गोयल	स. बी. प्र. अधि.	म. प्र. बीज प्रमाणीकरण संस्था, स्थानीय	9201163564

निशांत वरवड़े, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.